



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रतिभार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159

No. 159

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 23, 1982/वैशाख 3, 1904

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 23, 1982/VAISAKHA 3, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1982

का. आ. 279(अ)/18-क/आई डी आर ए/82.—भारत सरकार के भूतपूर्व
औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ.
678(अ)/18-क/आई डी आर ए/72, तारीख, 24 अक्टूबर, 1982 (जिससे इसमें
इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा, उक्त आदेश में निर्दिष्ट
प्राधिकृत नियंत्रक ने मैसर्स कार्टरपूलर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड,

कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था :

और केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 620(ई)/18-क/आई. डी. आर. ए./77, तारीख 19 अगस्त, 1977, सं. का. आ. 590(ई)/18क/आई. डी. आर. ए./79, तारीख 23 अक्टूबर, 1979, सं. का. आ. 855(ई), तारीख 23 अक्टूबर, 1980, सं. का. आ. 315(ई), तारीख 28 अक्टूबर, 1981 और सं. का. आ. 765(ई)/18क/आई. डी. आर. ए./81, तारीख 22 अक्टूबर, 1981 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 23 अप्रैल, 1982 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ा दी थी ।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त प्राधिकृत नियंत्रक; उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 30 जून, 1982 तक की और अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, जारी रखे ;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त आदेश 30 जून, 1982 तक की और अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है प्रभावी बना रहेगा ।

[फा.सं. 4(12)/79-सी.यू.एस.]

चंद्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 23rd April, 1982

S.O. 279(E)/18A/IDRA/82.—Whereas by the order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 678(E)/18A/IDRA/72, dated the 24th October, 1972 (hereinafter referred to as the said order), the management of the industrial undertaking known as Messrs Carter Pooler and Company Private Limited, Calcutta, had been taken over by the Authorised Controller referred to in the said order for a period of 5 years ;

And whereas, by the orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 620(E)/18A/IDRA/77, dated the 19th August, 1977, No. S.O. 590(E)/18A/IDRA/79, dated the 23rd October, 1979, No. S.O. 855(E), dated the 23rd October, 1980, No. S.O. 315(E), dated the 22nd April, 1981 and No. S.O. 765(E)/18A/IDRA/81